



The Listing Department, BSE Limited, Phiroje Jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Mumbai – 400001.

BSE SCRIP Code: 500112

The Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, 5th Floor, C / 1, 'G' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400051.

NSE SCRIP Code: SBIN

CC/S&B/AD/2023/340

05.08.2023

Madam / Sir,

SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015: NEWSPAPER PUBLICATION: FINANCIAL RESULTS QUARTER 30TH JUNE 2023

In continuation to our letter No. CC/S&B/AD/2023/329 dated 4th August 2023, regarding outcome of the Board Meeting and financials for the quarter ended June 30, 2023, we submit the copy of newspaper publication of the financials in Business Standard, Free Press Journal (English), Business Standard (Hindi) and Navshakti (Marathi) published on 5th August, 2023 in terms of Regulation 47 and other applicable provisions of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Please take the above information on record and arrange for dissemination.

Yours faithfully,

(Aruna N Dak)
AGM (Compliance & Company Secretary)





An *⋘₽* Company

KEC INTERNATIONAL LIMITED

CPI: L45200MH2005PLC152061

Registered Office: RPCH House, 463, Dr. Annie Besant Road, Worft, Mumbai - 400030.
Tel. No.: 022-66670200 - Fax: 022-66670287

Website: www.keprg..com - Email: investorpoin@keprg..com
Website: www.keprg..com - Email: investorpoin@keprg..com

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2023

			Quarte	Year Ended	
		Particu ars	June 30, 2023 (Unaudited)	June 30, 2022 (Unaudited)	March 31, 2023 (Audited)
ı	1	Revenue from operations	4,243.59	3,318.08	17,281,71
ı	2	Net Profit before exceptional items and tax	46.70	37.11	160.98
ı	3	Net Profit after exceptional items and before tax	46.70	37.11	160.98
ı	4	Net Profit for the period	42.33	31.02	176.03
ı		(after exceptional items and after tax)			
ı	5	Total Comprehensive Income for the period	28.11	47.71	253.81
ı		[Comprising Profit for the period (after tax)			
ı		and Other Comprehensive Income (after tax)]			
ı	6	Paid-up equity share capital (face value Rs. 2/- each)	51.42	51.42	51.42
ı	7	Other Equity			3,720.00
ı	8	Basic / Diluted Earnings Per Share (in Rupees)	1.65	1.21	6.85
ı		attributable to owners (not annualised)			
ı		(face value Rs. 2/- each) -			
ı		before and after extraordinary items (not annualised)			

2	2 Information of Standalone Unaudited Financial Results of the Company are as under: -				
Г		Quarter ended		Year Ended	
	Particulars	June 30, 2023 (Unaudited)	June 30, 2022 (Unaudited)	March 31, 2023 (Audited)	
F	Revenue from operations	3,701.49	2,848.64	15,413.23	
F	Profit after exceptional items and before tax	5.43	136.24	250.15	
F	Profit after tax	3.77	100.29	180.25	

The above is an extract of the detailed format of Consolidated Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of Standardor and Consolidated Unaudited Inancial Results are available on the stock exchanges websites, i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website i.e. www.kecrpg.com

For KEC INTERNATIONAL LIMITED

Place : Mumbai Date : August 03, 2023

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE
NOTICE is hereby given that
MR. T.T. VENUGOPAL is the
bonafide owner of the property
bearing Flat no. B-2, 102,

31/07/2023. If anyone has any objection with regard to the same, please file objections within 15 days of this publication in writing, otherwise if any claim comes forward hereafter will be considered as waived and/or

S. A. BARBHAI

PUBLIC NOTICE This is to inform to all concerned that MR. JAMNADAS NANJI DAVDA was the sole owner of Flat No. 501 on 5° Floor in 18° Ming, in the building known as "KOKIL KUNJ CO-OP. HSG. SOC. LTD." situated at Behind Patel Nagar, M. G. Cross Road No. 4 Kendrin

Floor in St Wing, in the building Involve as "KOHLK LOW) CO-OP HSG. SOC. LTD." shuated at Behind Pale Nagar, M. Cross Road No. 4, Kandival (West School Construction of the Construction o

notice/ward, notification howsever or otherwise or any interest on the said flame mentioned above within 5 (File) days in wriling to MR. ARAR P. GANDH at Office No. 102 on 1" Floor. "Ashiana Building." Shartial Mody Road, Kandivaii (West), Mumbai – 400 087, from the publication of this notice falling which it shall be presumed that no adverse tille, claim or demand of any nature whatsoever exists in respect of the above said Fland the claims if any shall be deemed to have waived and/or shandows.

SCHEDULE OF THE PROPERTY

SCHEDULE OF THE PROPERTY
FIRIN No.51 on 5° Floor in B''Ning
admasuring 239 sq. Ft. Carpet area
plus Balcony of 3.25 sq. Ft. Carpet area
plus Balcony of 3.25 sq. Ft. Carpet area
in the Building known as "KOKIL.
KUNI O.O.P. HSG. SOC. LTD.
situated all Behind Patel Nagar, M. G.
Cross Road No. 4. Kandival (Mesa)
all that piece or parene of land or ground
states. Initing and being at Village s.
Kandival, Taluka: Borivali, Ibearing
C.T. Sh. O. 1070 (Part) in he registration
district of Mumbai city and Mumbai
suburban district.

Date: 05.08.2023

VIMAL KEJRIWAL MANAGING DIRECTOR & CEO DIN - 00026981

Visit us at www.kecrpg.com

यूनियन बैंक Union Bank

Address: 21,Veena Union Dankofindia bank Website
Email: ubin0553352@unionbankofindia bank Website
ARB:MSM:718:2023
WITHOUT PREJUDICE

ARB-98/81-78-2923

WITHOUT PREJUDICE

Dave: 25 07.2923

10. Winsel Aquas Pvt. Ltd., A-92 1st Fkor, Big Industrial Complex, Milliary Road, Manch Andrei Eagl, Mannhar A-1920

11. Winsel Aguas Pvt. Ltd., A-92 1st Fkor, Big Industrial Complex, Milliary Road, Manch Andrei Eagl, Mannhar A-1920

12. Manch Andrei Eagl, Mannhar A-1920

12. Milliary Road, Manch Andrei Salagial, A-92 1st Floor, Raj Industrial Road, Start Andrei Salagial Side Makhanial Salagial, A-92 1st Floor, Raj Industrial Complex, Milliary Food, Manch Andrei Eagl), Mumbar 4-00090

13. Mir. Neelann Salagial Will Verindar Kumar Salagial, A-92 1st Floor, Raj Industrial Salagial Side Makhanial Salagial, A-92 1st Floor, Raj Industrial Complex, Milliary Food, Manch Andrei (Eagl), Mumbar 4-00090

13. Mir. Neelann Salagial Will Verindar Kumar Salagial, A-92 1st Floor, Raj Industrial Side Mancher (Eagl), Mumbar 4-00090

13. Mir. Neelann Salagial Will Verindar Kumar Salagial, A-92 1st Floor, Raj Industrial Side Mancher (Eagl), Mumbar 4-00090

13. Mir. Neelann Salagial Will Verindar Kumar Salagial, A-92 1st Floor, Raj Industrial Complex, Milliary Food, Mancher (Eagl), Mumbar 4-00090

13. Mir. Neelann Salagial Will Verindar Kumar Salagial, A-92 1st Floor, Raj Industrial Complex, Milliary Food, Mancher (Eagl), Mumbar 4-00090

13. Mir. Neelann Salagial Will Verindar Kumar Salagial, A-92 1st Floor, Raj Industrial Complex, Milliary Food, Mancher (Eagl), Mumbar 4-00090

13. Milliary Food, Mancher (Eagl), Mumbar 4-00090

14. Milliary Food, Mancher (Eagl), Mumbar 4-00090

15. Mir. Neelann (Eagl), Mumbar 4-00090

15. Mir.

Account Type	Account Number	Principle Outstanding Amount	
Secured OD (SOD)			Rs. 1,43,09,484.69
Secured OD (SOD)	085631100000353	Rs. 39,17,021.49	Rs. 30,01,445.00
	Total	Rs 2 44 11 572 89	Rs 1 73 10 929 69


Total Res. 2,44,11,572.89 [Rs. 1,75,10,929 or Total Principle Immunit Res. 1,73,10,928.89 [Rupues One Corre Seventy Three Lakh Ten Thousand Nine Hundred Twenty Nine And Sixty Nine Paisa Only) accrued up to 3 00.6 2033. In a spile of repeated domained mate by the Bank. all of you (corrowers, guarantors & above asid distillation) of the Res. 1,75,10,92.80 [Rupues Ten. 2,75] [Res. 1,75] [Re

Sr No	Account Number	Rate of interest
1.	085631100000043	1 yr MCLR + 3.05%
2.	085631100000353	I yr MCLR + 3.05%

2.		085631	085631100000353		I yr MCLR + 3.05%	
Sec	urities:					
S. No.	Description of Security	Name of Owner			Secured to the facility (All / Specific) if specific please mention	
1.	Prime Security		NIL			
2.	2. Collateral Security 1) Mr. Surinda Lal & Mrs. Neelam Saige 2) Mr. Rajaisi Kumar		Gala No.5 situated at / Wing1st Floor, R Industrial Comple Military Roa Marol, and Andhe (East) Mum 400059- Built area 945 Sq. ft.	A- laj X, Equitable Mortgage ai	All	
3.	Collateral Security	1) Mr. Surinder Lal & Mrs. Neelam Saigal 2) Mr. Rajaish Kumar	Water Purification Plant an machinery situate at Gala No. I- Ground Floo Royal compount Kaman- Bhiwan Road, Kaman Taluka Vasai, Die Palghar-401 208	d ed 2, r, Hypothecation d, di n,	All	

Yours faithfully Sd/-, Sd/-, Authorised Officer, Union Bank of India







EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2023

(₹ in Lakins except per share data						
	(Quarter Ende	d	Year Ended		
Particulars	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023		
	Un-Audited	Audited	Un-Audited	Audited		
Total Income from Operation (Net)	23,100	27,369	26,408	104,112		
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and $\!\!/$ or Extra ordinary items)	(1,496)	(21)	179	(1,836)		
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extra ordinary Items)	(1,496)	(21)	179	(1,836)		
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extra ordinary Items)	(1,442)	(87)	200	(1,593)		
Total Comprehensive income for the period (Comprising profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income/loss (after tax)	(1,433)	(26)	15	(1,631)		
Equity Share Capital	4,150.80	4,150.80	4,150.80	4,150.80		
Other Equity (reserves) as shown in the Balance sheet		-	-	9,948		
Earning Per Share (of Rs. 10/- each) (before and after Extra ordinary items) (not annualised except for year ended results)						
Basic (₹)	(3.47)	(0.21)	0.48	(3.84)		
Diluted (₹)	(3.47)	(0.21)	0.48	(3.84)		

- The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed unaudited financial results and this extract were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held of Var-Mugust, 2023. The full format of the unaudited financial results are available on the Stock Exchanges websites (www.bseindia.com, www.nseindia.com) and on the Company's website (www.maralowerseas.com). This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS), prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereafter, and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.

 The figures of the last quarter ended March 31, 2023 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year ended 31" March, 2023 and the unaudited published year to date figures ended December 31, 2022, being the date of the end of the third quarter of the financial year which was subject to limited review.

 The Statutory Auditor has reviewed the results for the quarter ended 30" June 2023 and has issued an unqualified limited review report.

Place : Noida (U.P.) Dated : 04th August, 2023

Sd/-Shekhar Agarwal Chairman & Managing Director and CEO DIN: 00066113

Registered Office: Maral Sarovar, V. & P.O. Khalbujurg, Tehsil Kasrawad, Distt. Khargone - 451 660, (M.P.)
Phone: +91-7285-265401-265405, Fax. +91-7285-265406; CIN: L17124MP1989PLC008255
Corporate Office: Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida - 201 301, (J.P.)
Phone: +91-120-4390300 (EPABY, Fax. +91-120-427784)
E-mail: maral.investor@Injbhilwara.com Website: www.maraloverseas.com

OSBI

NEXT-GEN TECHNOLOGY FOR ULTIMATE BANKING SAFETY

Choose from the wide array of innovative digital products for a secure banking experience

- YONO Business

₹ In Cro	re
----------	----

		STANDALONE			CONSOLIDATED		
Particulars	Quarter ended 30/06/2023	Year ended 31/03/2023	Quarter ended 30/06/2022	Quarter ended 30/06/2023	Year ended 31/03/2023	Quarter ended 30/06/2022	
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	
Total Income from operations (including exceptional items)	108038.83	368718.66	74988.57	132332.78	473378.14	94524.30	
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, exceptional and/or extraordinary items)	22795.62	67205.64	8360.18	25207.64	75398.56	10265.11	
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	22795.62	67205.64	8360.18	25207.64	75398.56	10265.11	
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	16884.29	50232.45	6068.08	18536.80	55648.17	7325.11	
Paid up Equity Share Capital	892.46	892.46	892.46	892.46	892.46	892.46	
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	298959.73	298959.73	255817.73	330282.60	330282.60	281317.72	
Earnings Per Share (face value of ₹1/- each) (for continuing and discontinued operations) (₹) (Quarter numbers not annualised)							
Basic :	18.92	56.29	6.80	20.77	62.35	8.21	
Diluted :	18.92	56.29	6.80	20.77	62.35	8.21	
Total comprehensive income for the period {Comprising Profit /(Loss) for the period after tax) and Other Comprehensive income after tax)}	Pofor Note No. 2						
Securities Premium Account	79115.48	79115.48	79115.47				
Net Worth	292811.54	276562.79	245837.47				
Debt Equity Ratio	0.64	0.66	0.63				
Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-				
Capital Redemption Reserve	-	-	-				
Debenture Redemption Reserve	-	-	-				
Outstanding Debt	412351.61	493135.15	480653.07				

- Notes:

 1) The above is an extract of the detailed format of Quarter / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites: www.bseindia.com, www.nseindia.com and Bank's Website: bank.sbi

 2) Information relating to Total Comprehensive Income and Other Comprehensive Income is not furnished as Ind AS is not yet made applicable to Banks.

By Order of the Board Dinesh Kumar Khara Chairman































According to the police, the boy's mother had inquired about his studies and even told him that she would call his teacher. When the woman went to the kitchen, the class 10 student tried to hang himself.



Nitin Desai's death: 5 booked, fin firms fear future lending

Financial consultants say at this rate no company would risk lending money as there would be a lurking fear that tomorrow they may face criminal action

S BALAKRISHNAN / Mumbai

In celebrated art director Nitin Desai's death by suicide, state home minister and Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis' direction to the Mumbai police to book cases of abetment against chairman of Edelweiss, Rasesh Shah, and other officials has sent shockwaves through the corporate sector.

A senior financial consultant said, "Edelweiss ARC (Asset Reconstruction), as a law-abiding corporate, had moved the National Company Tribunal (NCLT), Mumbai bench.

for recovering the loan. By no stretch of imagination can it be accused of abetting suicide of the debtor." He said that at this rate no finance company would risk lending money since there would be a lurking fear that tomorrow they may face criminal action. "The whole thing is absurd. Wonder who advised Fadnavis to take criminal action against the company," he said. Another chartered accountant said, "At this rate, finance companies would register their firms in Gujarat, preferably in the upcoming GIFT city, and ensure that the cause of action of any dispute is under the jurisdicjarat." He suggested, "Fadnavis would do well to ask the police to file summary closure reports and take the accused persons off the hook."

Six days after the nationwide lockdown was imposed on account of the pandemic, the loan account of Desai's ND Art World Private Ltd was declared a stressed account by the lender ECL Finance Ltd, an Edelweiss Group pro-

moted non-banking ficompany nance (NBFC).

On July 25, 2023, an NCLT bench comprising HV Subba Rao (member-judicial) and Anu Jagmohan Singh (member-technical) had ruled in favour

of Edelweiss ARC, to which the loan was assigned, which had moved an application under the Insolvency and Bankruptcy Code against Art World Pvt Ltd. Senior advocate Mustafa Doctor had appeared for Edelweiss and advocate Amir Arsiwala had represented ND's Art World.

Significantly, the Tribunal noted in its order that "the corporate debtor (NDs Art World) devoted so much space in the affidavit in reply complaining against the conduct of the financial creditor in initiating various proceedings before DRT (Debt Recovery Tribunal) and measures under the SARFAESI Act etc.,

Edelweiss ARC, as a lawabiding corporate, had moved the NCLT, Mumbai bench, for recovering the loan. By no stretch of imagination can it be accused of abetting suicide of the debtor.

-Senior financial consultant

At this rate, finance companies would register their firms in Gujarat, preferably in the upcoming GIFT city. Fadnavis would do well to ask the police to file summary closure reports and take the accused off the hook.

-Chartered accountant

which is the legitimate legal right of the financial creditor. The corporator debtor in a number of paras in their affidavit in reply clearly admitted the existence of "debt" and "default" committed by them and they have submitted an OTS (One Time Settlement) proposal on July 18, 2022 which was rejected by the financial creditor."

The tribunal ruled that Edelweiss' petition is allowed and ordered the initiation of a corporate insolvency resolution process against ND's Art World. Meanwhile, the service tax issues of the latter may also come under the

Bidding final adieu

In one of his voice recordings, Nitin Desai wished that his last rites should be performed at his Karjat studio

FPJ NEWS SERVICE / Mumbai

The last rites of the National Award-winning art director, Nitin Desai, were held on Friday at his studio in Karjat in the presence of family members and colleagues. Aamir Khan was among the few celebrities who attended the cremation. According to the police, Desai left a voice recorder with 11 audio clips. In one of them, he wished that his last rites should be performed at the studio.

Other Bollywood personalities, who showed up at Desai's last journey, were Ashutosh Gowariker, Sanjay Leela Bhansali, Manoj Joshi, Sonali Kulkarni, Subodh Bhave and Mukesh Rishi. Earlier in the day, Chief Minister Eknath Shinde, Deputy Chief Minister Ajit Pawar and BJP leaders Vinod Tawde and Kirit Somaiya paid their last respects to Desai at JJ Hospital, where his postmortem was conducted.

Talking to mediapersons, Khan said, "It's a shocking news. I am unable to believe how this happened. I wish he could have reached out for



mained tight-lipped about the low turnout of celebrities at the funeral. Similarly, Gowariker said that he

came to know the news.

help instead of taking this step. I cannot say much at this tragic moment." Recalling his meeting with Desai several months ago, the actor re-

was "shocked" when A four-time national

award winner for Best Art Direction, Desai has been credited with designing lavish sets





Lagaan, and Bajirao Mastani.

for some of the blockbusters

including Hum Dil De Chuke

Sanam, Devdas, Jodha Akbar,

Byculla zoo to introduce battery

SHEFALI PARAB-PANDIT

The BMC has invited tenders to provide battery-operated cars inside Veermata Jijabai Udyan And Zoo which is scheduled to start post-monsoon, as directed by Deepak Kesarkar, Guardian Minister of Mumbai (city).

The Byculla zoo, popularly known as Ranibaug, sprawls a 53-acre area, making it challenging for senior citizens, children and for people with disabilities to explore all the animal exhibits in a single day. In June, during his visit to the zoo, Kesarkar instructed civic officials to establish this facility. Consequently,

four battery-operated vehicles will be deployed in the zoo. The service will be available from 9.30am to 6pm with each vehicle having the capacity to accommodate up to eight people. The funding for these vehicles will be provided by the collector's office and the fare policy will be determined soon, said sources.

The initial plan to commence the facility from July was postponed due to heavy rains and reduced footfall. Instead, it will now be launched in October with a plan to increase the number of vehicles depending on its success, informed a senior civic official. On weekdays, the zoo attracts an average of 4,000 visitors.



visitor cars

operated

NEXT-GEN TECHNOLOGY FOR ULTIMATE BANKING SAFETY

Choose from the wide array of innovative digital products for a secure banking experience

- YONO SBI
- BHIM SBI Pay
- YONO Business
- Internet Banking
- SBI Quick



UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023

F	I m	C=	
	In		ore

		STANDALONE		CONSOLIDATED			
Particulars	Quarter ended 30/06/2023	Year ended 31/03/2023	Quarter ended 30/06/2022	Quarter ended 30/06/2023	Year ended 31/03/2023	Quarter ended 30/06/2022	
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	
Total Income from operations (including exceptional items)	108038.83	368718.66	74988.57	132332.78	473378.14	94524.30	
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, exceptional and/or extraordinary items)	22795.62	67205.64	8360.18	25207.64	75398.56	10265.11	
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	22795.62	67205.64	8360.18	25207.64	75398.56	10265.11	
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	16884.29	50232.45	6068.08	18536.80	55648.17	7325.11	
Paid up Equity Share Capital	892.46	892.46	892.46	892.46	892.46	892.46	
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	298959.73	298959.73	255817.73	330282.60	330282.60	281317.72	
Earnings Per Share (face value of ₹1/- each) (for continuing and discontinued operations) (₹) (Quarter numbers not annualised)							
Basic :	18.92	56.29	6.80	20.77	62.35	8.21	
Diluted :	18.92	56.29	6.80	20.77	62.35	8.21	
Total comprehensive income for the period {Comprising Profit /(Loss) for the period after tax) and Other Comprehensive income after tax)}			Refer No	ote No.2			
Securities Premium Account	79115.48	79115.48	79115.47				
Net Worth	292811.54	276562.79	245837.47				
Debt Equity Ratio	0.64	0.66	0.63				
Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-				
Capital Redemption Reserve	-		-				
Debenture Redemption Reserve	-						
Outstanding Debt	412351.61	493135.15	480653.07				

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarter / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites: www.bseindia.com, www.nseindia.com and Bank's Website: bank.sbi
- Information relating to Total Comprehensive Income and Other Comprehensive Income is not furnished as Ind AS is not yet made applicable to Banks.

Place: Mumbai

Date: 04.08.2023

STATE BANK OF INDIA, CORPORATE CENTRE, MADAME CAMA ROAD, MUMBAI – 400 021.

Dinesh Kumar Khara Chairman







Follow Us On 😝 🖸 👽 🖗 in 🔞









E	ctract of the Standalone & Consolidated Unaudited	Financial Re	esults For th	ne Quarter E	nded 30 th J	une, 2023	₹ in Crore	
SI.	PARTICULARS	03 Mon	ths Ended	Year Ended	03 Mont	hs Ended	Year Ended	
No.		30.06.2023	30.06.2022	31.03.2023	30.06.2023	30.06.2022	31.03.2023	l
			Standalone			Consolidated		No
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1	Total Income from Operations	5003.43	4672.00	23364.94	5003.43	4672.00	23364.94	2
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,	(469.94)	(254.70)	449.60	(478.27)	(264.22)	423.42	
	Exceptional items)							3
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax	(469.94)	(254.70)	449.60	(462.16)	(250.84)	479.44	
	(after Exceptional items & share of net profit/(loss) of	,	, ,		, ,	, ,		
	joint ventures in consolidated results)							4
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	(351.67)	(191.85)	447.55	(343.89)	(187.99)	477.39	
5	Total Comprehensive Income for the period	(363.85)	(151.75)	430.28	(356.03)	(147.89)	460.71	
	[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and	,	, ,		, ,	, ,		
`	Other Comprehensive Income (after tax)]							
6	Paid-up equity share capital (Face Value Rs 2 per share)	696.41	696.41	696.41	696.41	696.41	696.41	Pl: Da
7	Other Equity	26201.90	26123.00	26565.75	25775.60	25662.76	26131.62	Sh
8	Net Worth	26898.31	26819.41	27262.16	26472.01	26359.17	26828.03	(w
9	Basic & Diluted Earnings Per Share.	(1.01)	(0.55)	1.29	(0.99)	(0.54)	1.37	
10	Capital Redemption Reserve	37.87	37.87	37.87	37.87	37.87	37.87	



The above results have been prepared in accordance with applicable SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. These results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 04.08.2023

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results flied with the Stock Exchanges under applicable SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges websites: www.nseindia.com & www.bseindia.com and under "Financial Information" section of the Company's website: www.bhel.com

For the above reporting period, information in respect of Securities premium account, Debt capital, Preference shares, Debenture redemption reserve, Debt equity ratio, Debt service coverage ratio and Interest service coverage ratio is NIL/NA. For the other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchanges on the Stock Exchanges websites: www.nseindia.com & www.bseindia.com and under "Financial Information" section of the Company's website: www.bhel.com

For and on behalf of Bharat Heavy Electricals Limited

Bharat Heavy Electricals Limited

CIN: L74899DL1964GOI004281

Registered Office: BHEL House, Siri Fort, New Delhi - 110049, Phone No: 011-66337000, E-mail: shareholderquery@bhel.in

Powering Progress... Brightening Lives Touching Every Indian Home

nareholders may refer to the websites of National Stock Exchange of India (www.nseindia.com), BSE

📵 www.bhel.com 🧗 /BHEL Official 💟 /BHEL_India 🔼 /BHEL_India 🧑 /bhel.india 请 /company/bhel

राहुल को उच्चतम न्यायालय से राहत

न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाई, राहुल की सांसदी बहाल होने का रास्ता साफ

📆 से नेता राहुल गांधी की 'मोदी उपनाम' के बारे में की गई टिप्पणी के संबंध में 2019 में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में उच्चतम न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहराए जाने पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कांग्रेस नेता को निचली अदालत ने दो साल की अधिकतम सजा सुनाई लेकिन दोषी ठहराते समय कोई कारण नहीं बताया। अदालत ने कहा कि यदि सजा एक दिन भी कम होती तो उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता था। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक जीवन जीने वाले एक व्यक्ति के लिए इस तरह की टिप्पणी करना ठीक नहीं है।

कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष से यह मांग की थी कि राहुल की वायनाड से लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी जाए ताकि वह संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा में हिस्सा ले सकें। संसद में मंगलवार से अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होगी। पार्टी ने कहा कि सूरत की एक निचली अदालत की ओर से राहुल को दोषी करार दिए जाने के 24 घंटे के भीतर ही अप्रत्याशित तेजी दिखाते हुए लोकसभा सचिवालय ने राहुल को निलंबित करने के आदेश दे



ठहराए जाने के एक दिन बाद ही लोकसभा सचिवालय ने राहल की सदस्यता को अयोग्य करार दिया था और उन्हें एक महीने के भीतर ही आधिकारिक बंगला खाली करने के आदेश दिए गए।

उच्चतम न्यायालय में राहुल का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मन सिंघवी ने कहा कि लोकसभा सचिवालय को राहल गांधी की सदस्यता जल्द से जल्द बहाल करनी चाहिए क्योंकि ऐसा न होने पर फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है। विपक्षी दलों के गठबंधन, इंडियन नैशनल इन्क्लूसिव डेवलपमेंटल अलायंस (इंडिया) के नेताओं ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का दिए। सुरत की अदालत द्वारा दोषी स्वागत किया, वहीं राहुल ने ट्वीट किया

'चाहे जो कछ भी हो, मेरा कर्तव्य समान ही रहेगा। भारत के विचार को सुरक्षित करना।' बाद में कांग्रेस मुख्यालय पर राहल ने लोगों के प्यार और समर्थन के धन्यवाद देते हुए कहा कि सच की हमेशा जीत होती है। उन्होंने कहा, 'मेरा रास्ता हमेशा साफ है। मुझे यह स्पष्ट रूप से पता है कि मझे क्या करना चाहिए।'

शुक्रवार को न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमुर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार के पीठ ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते समय कोई कारण नहीं बताया सिवाय इसके कि उन्हें अवमानना मामले में शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी थी।

शीर्ष अदालत ने राफेल मामले के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

कब क्या हुआ

■ 13 अप्रैल, 2019 : कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कहा, 'नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो या नरेंद्र मोदी, सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों हैं?'

■ 15 अप्रैल, 2019 : सूरत से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने इस टिप्पणी को लेकर राहल गांधी के खिलाफ मानहानि का फौजदारी मुकदमा दर्ज कराया

खिलाफ उनकी 'चौकीदार चोर है' टिप्पणी को गलत तरीके से बताने के लिए राहुल गांधी द्वारा बिना शर्त माफी के बाद उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही बंद करते हुए भविष्य में उन्हें और अधिक सावधान रहने की चेतावनी दी थी। अदालत गुजरात उच्च न्यायालय को चुनौती देने वाली राहुल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

पीठ ने कहा. 'यदि सजा एक दिन कम होती, तो प्रावधान लागू नहीं होते, खासकर जब कोई अपराध गैर संज्ञेय, जमानती और समझौता योग्य हो। निचली अदालत के न्यायाधीश से कम से कम यह अपेक्षा थी कि वह अधिकतम सजा देने के लिए कुछ।

शीर्ष अदालत ने कहा कि राहुल की

दोषसिद्धि और उसके बाद संसद की सदस्यता से अयोग्य करार दिया जाने से न केवल सार्वजनिक जीवन में बने रहने का उनका अधिकार प्रभावित हुआ है बल्कि इससे मतदाताओं के अधिकार भी प्रभावित हुए हैं जिन्होंने उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना था। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई राहुल का पक्ष लेकर अदालत में मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मन् सिंघवी ने पीठ से कहा कि राहल कोई अपराधी नहीं हैं और न ही किसी अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया है। उनका कहना था कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ कई मामले जरूर दर्ज कराए हैं।

सिंघवी ने बाद में कहा कि राहल के खिलाफ करीब 13 मामले दर्ज कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि 21 महीने तक राहल के कोलार भाषण के कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किए जा सके। उन्होंने कहा कि आखिरकार भाजपा के एक सदस्य गवाह बनकर अदालत में पेश हुए और उन्होंने दावा किया कि वह उस जनसभा में मौजूद थे जहां राहुल ने वह भाषण दिया था।

भाजपा के एक विधायक पूर्णेश मोदी ने राहल की उस टिप्पणी के खिलाफ 2019 में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था जिसमें उन्होंने कहा था. 'सभी चोरों के उपनाम मोदी कैसे है ?'यह टिप्पणी 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार की एक चुनावी रैली के दौरान की गई थी।

तीनों सेनाओं की कमान के लिए न्यायिक ढांचा

लोकसभा से अंतर-सेना संगठन विधेयक पारित

तीनों सेनाओं की कमांड के लिए एक न्यायिक ढांचा तैयार करने की दिशा में अहम कदम बढ़ाते हुए लोकसभा ने शुक्रवार को एक नया कानुन पारित किया जिसे अंतर सेना संगठन विधेयक यानी इंटर-सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन (कमांड, कंट्रोल ऐंड डिसिप्लिन) बिल-2023 नाम दिया गया है।

आईएसओ बिल-2023 के संक्षिप्त नाम वाला यह विधेयक थलसेना, नौसेना और वायु सेना के सभी नियमित कर्मियों पर लागू होगा। साथ ही यह उन सभी अन्य बलों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसुचित हैं और जो अंतर-सेना संगठनों (आईएसओ) में सेवा दे रहे हैं अथवा उससे संबद्ध हैं। यह विधेयक आईएसओ के कमांडर्स इन चीफ और ऑफिसर्स इन कमांड को ऐसे संस्थानों में सेवारत कर्मियों या संबद्ध कर्मियों पर अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करता है।

फिलहाल सशस्त्र बलों के कर्मियों पर उनकी संबंधित सेना के अधिनियम लागू होते हैं। थलसेना के जवानों पर आर्मी ऐक्ट 1950. नौसेना पर नेवी ऐक्ट 1957 और वायु सेना पर एयर फोर्स ऐक्ट 1950 के प्रावधान लागू होते हैं। आशा है कि नया तीन सेनाओं वाला विधिक ढांचा आईएसओ प्रमुखों द्वारा प्रभावी अनशासन के रूप में उपयक्त लाभ अपने साथ लाएगा। सेना के विकास के साथ ऐसे तरीके भी तलाश करने होंगे जो उसके बदलते घटकों से निपट सकें।इनमें महिला लड़ाकू योद्धा, साइबर कानून, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस जैसी बातें शामिल हैं। पूर्व जज एडवोकेट जनरल (जेएजी) और सेना के सबसे वरिष्ठ विधिक अधिकारी मेजर जनरल निलेंद्र कुमार ने कहा. 'यह विधायी प्रयास हालांकि देर से किया गया है लेकिन यह सही दिशा में उठाया गया कदम है।इसके बाद कुछ नियम और नियामकीय ढांचे तैयार करने होंगे और साथ ही अधिकारियों को



प्रवर्तन की दृष्टि से प्रशिक्षित भी करना होगा।

राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

आईएसओ-2023 विधेयक अनिवार्य तौर पर एक ऐसा कानून है जो मौजूदा सेवा अधिनियमों, नियमों और नियमन में कोई परिवर्तन नहीं करता। ये सभी नियम कानून समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और बीते छह दशक या ज्यादा समय में वे न्यायिक परीक्षण की कसौटी पर भी खरे रहे हैं। विभिन्न सेवाओं के कर्मी जब पद पर होते हैं या किसी आईएसओ से संबद्ध होते हैं तो उन पर उनकी संबंधित सेवाओं के कानन लाग रहेंगे। बस यह नया कानून आईएसओ प्रमुखों को अनुशासनात्मक एवं प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करता है।रक्षा मंत्रालय ने कहा, 'विधेयक तीनों सेनाओं में एकीकरण बढ़ाने तथा उन्हें संयुक्त करने की दिशा में भी पहल करने में मदद करेगा। यह आने वाले समय में संयुक्त ढांचा तैयार करने में भी मदद करेगा तथा सशस्त्र बलों का कामकाज बेहतर बनाएगा।' मंत्रालय ने आगे कहा कि इस विधेयक को लोकसभा में पेश करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे सरकार के सैन्य सुधारों की श्रृंखला का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सुधार देश को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे हैं। यह विधेयक कमांडरों को

भी विभिन्न स्तरों पर सशक्त करता है और उन्हें

जरूरी अनुशासनात्मक एवं प्रशासनिक

शक्तियां प्रदान करता है ताकि वे अपने कर्तव्यों

का सही तरीके से पालन कर सकें।

आयात पर रोक की आशंका से घिरा नेहरू प्लेस का बाजार

पृष्ठ १ का शेष

पुराने (सेकंड हैंड) लैपटॉप की बिक्री करने वाले दुकान, 'लैपटॉप बाजार' के मालिक, कुमार का कहना है कि इस तरह के कदम का प्रभाव

सेकंड हैंड बाजार पर भी पड़ेगा। उनका कहना है, 'जो लोग वैकल्पिक तरीके से महंगे सेकंड हैंड सामान खरीद रहे थे अब वे नया सामान खरीदने का विकल्प चुन सकते हैं क्योंकि दोनों के बीच लागत का अंतर कम हो सकता है।' कुमार हर महीने करीब 15-20 पुराने लैपटॉप बेचते। हैं और इन लैपटॉप की कीमत 7,000 रुपये से 40,000 रुपये तक होती है। खुदरा विक्रेताओं का कहना है कि इस कदम के पीछे मल विचार, स्थानीय विनिर्माण को बढावा देना है जो सही है लेकिन इस पर अमल करने में काफी

एक अन्य लैपटॉप रिटेलर नाम न बताने की शर्त पर कहते हैं, 'मेक इन इंडिया रातोरात नहीं हो सकती है। नए प्रतिबंध से बाजार में मांग-आपर्ति का अंतर बनेगा और इससे आखिरकार कीमतों में बढोतरी होगी।' उनका कहना है, 'ग्राहक जल्दबाजी में लैपटॉप खरीदना चाहेंगे भले ही उसकी कीमत बढ़ी हुई हो। यही बात पुराने और असेंबल लैपटॉप के लिए भी सच होगी जिसे कंपनी का 👚 किए गए उत्पाद पर ही लगाए गए



एक अधिकृत स्टोर बेचता है। इनकी कीमतों में भी इस वजह से बढ़ोतरी देखी जाएगी क्योंकि उत्पादों की आपूर्ति मांग के अनुरूप नहीं होगी। ' इन दिनों दिन के दौरान बाजार में

ज्यादा व्यस्तता नहीं दिखती है। वह कहते हैं. 'आने वाले दिनों में भीड़ बढ़ेगी। जो लोग बाद में लैपटॉप या टैबलेट खरीदने की योजना बना रहे थे अब वे बाजार में जल्दी खरीदारी करने के लिए आएंगे ताकि उन्हें बाद में अतिरिक्त पैसे का भुगतान न करना पड़े।' हालांकि कुछ खुदरा विक्रेताओं का कहना है कि अधिक कीमतों के बावजूद बिक्री पर असर नहीं पड़ेगा। एक मल्टीब्रांड लैपटॉप रिटेलर, लैपटॉप स्टोर के एक विक्रेता चेतन का कहना है कि लैपटॉप और टैबलेट रोज काम करने वाले पेशेवर लोगों के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण है। उनका कहना है, 'यह एक ऐसा उपकरण है जो लोगों के काम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसके बगैर उनका काम नहीं चल सकता है। उन्हें इसके लिए ज्यादा पैसे निकालने होंगे, भले ही इसमें मुश्किल आए।

बाजार में एक कस्टम पीसी निर्माता धीरज राणा का कहना है कि इस कदम से उनके कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये प्रतिबंध केवल पूरी तरह से असेंबल

ज्ञानवापी: शीर्ष अदालत की भी हरी झंडी

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआई) की एक टीम ने कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार सुबह वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया। सर्वे से विरत रहे मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वाराणसी की जिला अदालत ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए एएसआई को चार सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है।

OSBI

सर्वोत्तम बैंकिंग सुरक्षा के लिए नेक्स्ट - जेन टेक्नोलॉजी

सुरक्षित बैंकिंग अनुभव के लिए नवीन डिजिटल उत्पादों की विरुतृत श्रृंखला में से चुनें

- योनो एसबीआई
- भीम एसबीआई पे
- डंटरनेट बैंकिंग
- एसबीआई क्विक



	वेः	व्वल भारतीय स्टेट बैंद	क		स्टेट बैंक समूह	
विवरण	30/06/2023 को समाप्त तिमाही	31/03/2023 को समाप्त वर्ष	30/06/2022 को समाप्त तिमाही	30/06/2023 को समाप्त तिमाही	31/03/2023 को समाप्त वर्ष	30/06/2022 को समाप्त तिमाही
	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित
कुल परिचालन आय (अपवादात्मक मदों सहित)	108038.83	368718.66	74988.57	132332.78	473378.14	94524.3
इस अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) (कर-पूर्व, अपवादात्मक तथा/अथवा असाधारण मर्दे)	22795.62	67205.64	8360.18	25207.64	75398.56	10265.1
इस अवधि के लिए कर-पूर्व निवल लाभ / (हानि) (अपवादात्मक तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	22795.62	67205.64	8360.18	25207.64	75398.56	10265.1
इस अवधि के लिए कर-पश्चात निवल लाभ / (हानि) (अपवादात्मक तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	16884.29	50232.45	6068.08	18536.80	55648.17	7325.1
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी	892.46	892.46	892.46	892.46	892.46	892.4
आरक्षित निधियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों को छोड़कर) जिस प्रकार पिछले वर्ष के लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र में दर्शाई गई	298959.73	298959.73	255817.73	330282.60	330282.60	281317.7
प्रति शेयर आय (प्रत्येक 1 रुपए के अंकित मूल्य के) (चालू एवं बंद परिचालनों के लिए) (₹) (तिमाही आंकड़े वार्षिकीकृत नहीं)						
बेसिक	18.92	56.29	6.80	20.77	62.35	8.2
डायल्यूटेड	18.92	56.29	6.80	20.77	62.35	8.2
अवधि की कुल व्यापक आय (अवधि के लिए कर-पश्चात लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय कर-पश्चात सहित)	संदर्भ के लिए नोट संख्या 2 देखें					
प्रतिभूति प्रीमियम खाता	79115.48	79115.48	79115.47			
निवल मालियत	292811.54	276562.79	245837.47			
कर्ज इक्विटी अनुपात	0.64	0.66	0.63			
बकाया मोचनीय अधिमानी शेयर	-	-	-			
पूंजी मोचन आरक्षित निधि	-	-	-			

1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास जमा किए गए तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश हैं। तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट: www.bseindia.com, www.nseindia.com और बैंक की वेबसाइट: bank.sbi

493135.15

480653.07

कुल व्यापक आय और अन्य व्यापक आय से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि इंड-एएस को अभी तक बैंक पर लागू नहीं किया गया है।

412351.61

रुथान : मुंबई दिनांक: 04.08.2023

डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि

बकाया कर्ज

बोर्ड के आदेशानुसार दिनेश कुमार खारा





नूंह हिंसा में 200 से अधिक गिरफ्तार

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में हाल में हुई सांप्रदायिक झड़पों के सिलसिले में अब तक कुल 202 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 80 को हिरासत में लिया गया है। विज ने यह भी कहा कि झड़पों के संबंध में अब तक 102 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, जिनमें से आधी अकेले नूंह में और बाकी गुरुग्राम, फरीदाबाद तथा पलवल सहित अन्य जिलों में दर्ज की गई हैं।

www.bankofbaroda.in



बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सुविधा प्रबंधन विभाग, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा, प्रतिष्ठित ठेकेदारों से बैंक के आवासीय फ्लैट अक्षय अपार्टमेंट, बड़ौदा में सिविल, इलैक्ट्रिकल, प्लंबिंग और सम्बद्ध कार्य हेत् दोहरी बोली प्रणाली के तहत सीलबंद निविदा आमंत्रित करता है।

"परिशिष्ट", यदि कोई हो, तो उसे केवल बैंक की वैबसाइट www.bankofbaroda.in के निविदा खंड में अधिसूचित किया जाएगा। बोलीकर्ता अंतिम रूप से प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले इसे अवश्य देख लें।

निविदाएँ जमा करने कि अंतिम तिथि 25/08/2023 संध्या 1500 बजे तक। हेतु बैंक जानकारी की www.bankofbaroda.in/tenders/corporate-office देखे।

स्थान: बडौदा दिनांक: 05.08.2023

सहायक महाप्रबंधक (सु. प्र एवं सुरक्षा) प्रधान कार्यालय, बड़ौदा

सिडबी

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशन एंड लेन्डिंग फॉर ए वाइब्रेंट इकोसिस्टम (इवॉल्व) के कार्यान्वयन हेतु एमआईएस प्रणाली, डैशबोर्ड, डेटाबेस प्रबंधन, तकनीकी सहायता और मेंटेनेंस आदि के साथ-साथ एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म के डिजाइन, विकास और परिनियोजन के लिए एजेंसी से निविदा आमंत्रित करता है

विज्ञापन संख्या - सिडबी/जीसीएफवी/इवॉल्व/आईटी/2022-23/टी002298827 दिनांक 05.08.2023 सिडबी विश्व बैंक समर्थित इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशन एंड लेन्डिंग फॉर ए वाइब्रेंट इकोसिस्टम (इवॉल्व) के कार्यान्वयन हेत् एमआईएस प्रणाली, डैशबोर्ड, डेटाबेस प्रबंधन, तकनीकी सहायता और मेंटेनेंस आदि के साथ-साथ एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म के डिजाइन, विकास और परिनियोजन के लिए एजेंसी से निविदा आमंत्रित करता है।

अधिक जानकारी के लिए, इच्छुक एजेंसियाँ वेबसाइट पर निविदा के पृष्ठ पर जा सकती हैं (https://www.sidbi.in/en/tenders)

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि अगस्त 30, 2023 (15:00 बजे तक) है। महाप्रबंधक

हरित जलवायु वित्त उद्भाग सिडबी, नई दिल्ली

भारतीय स्टेट बैंक, कॉरपोरेट केंद्र, मादाम कामा रोड, मुंबई - 400 021.

हमें फॉलो करें 😝 🖸 🛂 👂 🐚 🧐



🔺 🛦 🛕 वर्ष ८९ 🔺 अंक २५९ 🔺 शनिवार 🔺 ५ ऑगस्ट २०२३ 🛦 🛦 🔺





पाक कनेक्शन

केदारनाथला तिघांचा मृत्यू, १२ जण बेपता

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ यात्रेचा मुख्य मार्ग असलेल्या गौरीकुंड येथे गुरुवारी मध्यरात्री भूस्खलन होऊन मोठी दुर्घटना घडली. यात्रेच्या मार्गात मोठी दरड कोसळल्याने तेथे ३ जणांचा मृत्यू झाला असून, बारा यात्रेकरू बेपत्ता आहेत. ते दरडीखाली गाडले गेल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे, मात्र एसडीआरएफ व एनडीआरएफ यांची बचाव पथके घटनास्थळी त्वरित दाखल झाली असून, बचावकार्य वेगाने सुरू आहे. स्थानिक पोलीस देखील आपत्ती व्यवस्थापनात मोलाची कामगिरी करीत असल्याची माहिती रुद्रप्रयाग प्रशासनाने दिली आहे. १२ दुकानांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. गुरुवारी रात्री संपूर्ण केदार खोऱ्यात प्रचंड पाऊस पडत होता. त्यानंतर डोंगरमाथ्यावरून दगड, मातीने भरलेला मोठा ढिगारा खाली कोसळत आला. त्यात मोठमोठे दगडही होते. स्थानिक लोक आणि पोलिसांनी एसडीआरएफ यांच्या जवानांसह बचावकार्यास त्वरित सुरुवात केली. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी घटनास्थळी ताबडतोब पोहोचले व बचावकार्याला गती मिळण्यासाठी अनेक सूचना केल्या.

महागद्दार कोण, सांगावे लागेल!

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा विधानसभेत इशारा

प्रतिनिधी / मुंबई

गेले वर्षभर आमच्या आमदारांना सातत्याने पन्नास खोके. गहार या शब्दांनी हिणवण्यात आले. आता या खोके, गद्दार शब्दांचा सोक्षमोक्ष लावावाच लागेल. महाराष्ट्राचा महागद्दार कोण, हे देखील जनतेला सांगावे लागेल. बाळासाहेबांच्या विचारांशी कोणी गद्दारी केली, जनतेशी कोणी गद्दारी केली, पंचवीस वर्षे जुन्या मित्राशी आणि स्वतःच्या परिवाराशीही बेईमानी कोणी केली, हे सांगावे लागेल. आम्ही तर ज्यांच्यासोबत युती करून निवडून आलो, त्यांच्यासोबतच सरकार स्थापन केले. माझ्याकडे खूप गोष्टी आहेत. त्या बोलता येतील, पण संयम बाळगतो याचा अर्थ बोलता येत नाही असे समजू नका, असा सज्जड इशारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिला.

विधानसभेत विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे नाव न घेता मुख्यमंत्री शिंदे यांनी त्यांच्यावर जोरदार कोविड घोटाळ्यातील दोषींना सोडणार नाही

''कोविडमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांना आर्थिक मदतीपासून कोणी वंचित राहणार नाही, हा मुख्यमंत्री म्हणून मी शब्द देतो . कोविड काळात लोक मरत असताना काही लोक पैसे कमावत होते . ज्यांनी घोटाळे केले, त्यांना सोडणार नाही . ईडी चौकशी करते आहे . कालबाह्य झालेले ऑक्सिजन प्लॅंट वापरले गेले. त्यामुळे रुग्णांना ब्लॅक फंगस झाला. डेड बॉडी बॅग चार-पाचशे रुपयांची, ती सहा हजार रुपयांत विकत घेण्याचे काम केले. लाइफलाईन हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर नसताना पैसे काढले, हे पाप आहे . त्याचा हिशेब तर द्यावा लागेल. कोणावरही आकसापोटी, सूडभावनेने कारवाई करणार नाही, असेही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

आरोप त्यांनी भाषणातून खोडून काढले. विरोधक गोंधळलेले आहेत. त्यांचा आत्मविश्वास कमी वाटत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ''वेदांता-फॉक्सकॉन गेल्याबाबत काहूर उठविले होते. त्याबाबत उद्योग मंत्र्यांनी श्वेतपत्रिका जाहीर केल्याने सगळ्यांचे समाधान झाले असेल. महाराष्ट्रात वर्षभरात १ लाख १८ हजार कोटींची विदेशी गुंतवणूक झाली. दोन वर्षांत सरकार स्थापन व्हायच्या पूर्वी कर्नाटक, गुजरात पुढे होते. महाराष्ट्र आता

टीकास्त्र सोडले. विरोधी पक्षांनी केलेले सर्व

पुन्हा नंबर एकवर आहे. दाओसमध्ये १ लाख ३७ हजारचे एमओयू सही झाले होते. त्यातील ७० ते ८० हजार कोटींची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.''

शिंदे म्हणाले, ''राज्यात आज सर्व प्रकल्प युद्धपातळीवर सुरू आहेत. हे सरकार परफॉर्मन्सवाले आहे. फेसबुक लाइव्ह घरी बसून काम करणारे सरकार नाही. चोवीस तास काम करणारे सरकार आहे. गेले वर्षभर सरकार पडणार. रोज पडणार, मुख्यमंत्री बदलणार, अशी आवई काहीजण उठवत होते. पण, उलटच झाले.

औरंगजेबाच्या पिलावळीची वळवळ टेचू

''औरंगाबादचे संभाजीनगर करायचा निर्णय आम्ही घेतला . प्रकरण कोर्टात गेले आहे, त्यातून मार्ग काढू. राज्यात काही लोक औरंगजेबाचा फोटो स्टेटसला ठेवतात. हे महाराष्ट्रात चालणार नाही . औरंगजेब हा देश किंवा महाराष्ट्राचा हिरो बनू शकत नाही . तो खलनायक आहे. महाराष्ट्राचे महानायक छत्रपती शिवाजी महाराजच. औरंगजेब हा महाराष्ट्राचा शत्रू. अशा प्रकारची पिलावळीची वळवळ कोणी सहन करणार नाही . तिला ठेचून काढावेच लागेल,'' असे शिंदे म्हणाले.

अजितदादा आमच्याकडे आले. १७० चे संख्याबळ आज २१५ वर गेले आहे. आधीचे शासन आपल्या दारी नाही तर शासन आपल्या घरी होते, असा टोला त्यांनी संमिश्र पानावर

लोकसभा, विधानसभा उमेदवारीचे वय १८?

Reg.No.MCS/049/2021-23/RNI No.1691/57 m.p.c.s. office mumbai-400 001

संसदेच्या स्थायी समितीची शिफारस

नवी दिल्ली: भारत हा सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या असलेला जगातील सर्वात मोठा देश आहे. सध्या भारतात लोकसभा, विधानसभा निवडणूक लढवण्याचे किमान वय २५ वर्षे आहे. ते आता १८ वर्षे करावे, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस संसदेच्या कायदा व कामकाज समितीच्या स्थायी समितीने केली आहे.

निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत अधिकाधिक तरुणांचा समावेश करण्यासाठी खासदार व आमदारकीची निवडणूक लढवण्याचे वय १८ वर्षे करण्याची शिफारस केली आहे. भाजपचे नेते सुशीलकुमार मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली कायदा व कामकाज विभागाच्या संसदेच्या स्थायी समितीने संमिश्र पानावर राष्ट्रीय निवडणुका लढवण्याचे वय



कफयुक्त खोकला घशातील खवखव घसा दुखणे ह्यावर गुणकारी



्टा – ता ें हाच संपूर्ण आयुर्वेदिक उपाय कफ, खोकला यांवर अत्यंत गुणकारी पर्याय!

कफ सुटून घशाला त्वरीत आराम मिळतो. **अहिल्या आयुर्वेदिक औषधालय**्र मुंबई ६३. **\+918108130009 •** www.khogo.in

निवडक

कल्पतरू बिल्डर्सवर प्राप्तिकरचे छापे


धर्मेश ठक्कर/मुंबई कर चुकवेगिरी केल्याच्या आरोपातून मुंबईस्थित कल्पतरू बिल्डर्सच्या चार राज्यांतील ३० ठिकाणी प्राप्तिकर विभागाने छापेमारी केली. प्राप्तिकर विभागाने कल्पतरू समुहाचे संस्थापक मोफतराज मुनोत व व्यवस्थापकीय संचालक पराग मुनोत यांच्या निवासस्थानी व कार्यालयावरही छापे मारले. प्राप्तिकर विभागाने मुंबई, कर्जत, गोवा, गुजरात, राजस्थान येथे छापेमारी केली. या प्रकरणी प्राप्तिकर विभागाने कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिला. कल्पतरू ग्रुप ऑफ कंपनीत कल्पतरू प्रोजेक्ट्स ही कंपनी नोंदणीकृत आहे. श्री शुभम लॉजिस्टीक, कल्पतरू लिमिटेड या कंपन्यात आहेत. या सर्व कंपन्यांवर प्राप्तिकर विभागाची नजर आहे. यंदाच्या मेमध्ये कल्पतरू पॉवर ट्रान्समिशनने कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनॅशनल असे नामकरण केले. गेल्या काही वर्षांपासून हा समूह जागतिक अभियांत्रिकी बांधणी क्षेत्रात पुढे आला आहे. त्याने वीज क्षेत्रात ट्रान्सिमशन व वितरण कंपनी म्हणून नावलौकिक मिळवला.

यांचा राजीनामा

भर न्यायालयात राजीनामा दिल्याने तर्कवितर्कांना उधाण

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी न्यायालयाचे कामकाज सुरू असताना शुक्रवारी राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्याचे कारण स्पष्ट झालेले नाही, मात्र, राजीनाम्यामुळे तर्क वितर्कांना उधाण आले आहे. राजीनामा देताना न्यायमुर्ती देव यांनी कोर्टासमोर माफीही

मागितली आहे. न्यायमूर्ती रोहित देव यांची २०१७ साली मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली. त्याआधी त्यांनी राज्याचे महाधिवक्ता व केंद्र सरकारचे अतिरिक्त



सांभाळली होती. त्यांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या विधी महाविद्यालयातून १९८६ मध्ये एल.एल. बी. पदवी प्राप्त केली आहे. त्यानंतर त्यांनी वरिष्ठ वकील सुबोध धर्माधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक वर्षे काम केले. १९९० पासून त्यांनी स्वतंत्रपणे विकली व्यवसायाला सुरुवात केली. त्यांनी ३० वर्षांच्या विकली व्यवसायात विविध प्रकारची प्रकरणे हाताळली होती. दीड वर्षांनंतर ४ डिसेंबर २०२५ रोजी त्यांचा सेवाकाल समाप्त होणार होता. मात्र, त्याआधीच त्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे.

...तर मी माफी मागतो

न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी आपल्या राजीनाम्याची घोषणा करतानाच भर कोर्टात माफीही मागितली . "आपण सर्वांनी इथे काम करताना खुप मेहनत घेतली . माझ्या मनात तुमच्या कृणाबद्दलही राग किंवा वाईट भावना नाही . पण, मी जर अनवधानाने तुम्हा कुणाला दुखावले असेल, तर त्यासाठी आपली माफी मागतो," असे न्यायमूर्ती देव म्हणाले.

वायफाय, लिफ्ट, वेटिंग रूम : रविवारी पंतप्रधानांच्या हस्ते कामांचा शुभारंभ

मध्य रेल्वेच्या मुंबईतील १५ स्थानकांचा कायापालट

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जीवनात आणलेला एक दूरदर्शी उपक्रम "अमृत भारत स्टेशन योजना" साकार करणार आहोत. ही परिवर्तनकारी योजना देशभरातील १,३०९ रेल्वे स्थानकांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी, ट्रॅव्हल हबमध्ये नवीन जीव-श्वास घेण्यासाठी आणि एकूणच प्रवाशांचा सुखद अनुभव वाढवण्यासाठी सज्ज आहे. यात मध्य रेल्वेच्या मुंबईतील १५, तर मध्य रेल्वेच्या अखत्यारितील ७६ स्थानकांत प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते रविवारी या कामांचा शुभारंभ होणार आहे.

पंतप्रधानांच्या अमृत भारत स्टेशन योजनेंतर्गत देशभरातील ५०८ रेल्वे स्थानकांच्या पायाभरणीच्या होणाऱ्या समारंभाची माहिती देण्यासाठी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना "अमृत भारत स्टेशन योजने अंतर्गत मध्य रेल्वेवरील ७६ रेल्वे स्थानके अपग्रेड/आधुनिकीकरणासाठी हाती घेण्याची



मुंबईतील 'या' स्थानकांचा कायापालट अमृत भारत स्टेशन योजनेंतर्गत मध्य रेल्वेच्या ७६ स्थानकांची सुधारणा/पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. यात भायखळा, चिंचपोकळी, परळ, माटुंगा, कुर्ला,

विद्याविहार, विक्रोळी, कांजूरमार्ग, मुंब्रा, दिवा, शहाड,

टिटवाळा, इगतपुरी, वडाळा रोड, सँडहर्स्ट रोड.

कल्पना आहे आणि त्यामध्ये ३८ स्थानकांची पायाभरणी केली जाईल. यामध्ये स्टेशनवरील सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी 🕨 संमिश्र पानावर

OSBI

सर्वोत्तम बँकिंग सुरक्षेसाठी नेक्स्ट - जेन टेक्नॉलॉजी

तुमच्या सुरक्षित बँकिंगकरिता अत्याधुनिक डिजिटल उत्पादनांची विरुतृत श्रृंखला

- योनो एसबीआय
- इंटरनेट बॅंकिंग
- भीम एसबीआय प
- योनो बिझनेस





३० जून, २०२३ रोजी समाप्त तिमाही आणि वर्षासाठी अलेखापरीक्षित आर्थिक निकाल रू. कोटींमध्ये							
	केवल भारतीय स्टेट बेंक				स्टेट बैंक समूह		
तपशील	३०/०६/२०२३ रोजी समाप्त तिमाही	३१/०३/२०२३ रोजी समाप्त वर्ष	३०/०६/२०२२ रोजी समाप्त तिमाही	३०/०६/२०२३ रोजी समाप्त तिमाही	३१/०३/२०२३ रोजी समाप्त वर्ष	३०/०६/२०२२ रोजी समाप्त तिमाही	
	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	
एकूण परिचालन उत्पन्न (विशेष वस्तूंसह)	90८0३८.८३	३६८७१८.६६	७४९८८.५७	937337.0८	४७३३७८.१४	९४५२४.३०	
या कालावधीसाठी निव्वळ नफा / (तोटा) (कर-पूर्व, विशेष तथा/किंवा असाधारण वस्तू)	२२७९५.६२	६७२०५.६४	८३६०.१८	२५२०७.६४	७५३९८.५६	१०२६५.११	
या कालावधीसाठी कर-पूर्व निव्वळ लाभ / (तोटा) (विशेष तथा/किंवा असाधारण वस्तूंच्या पश्चात)	२२७९५.६२	६७२०५.६४	८३६०.१८	२५२०७.६४	७५३९८.५६	१०२६५.११	
या कालावधीसाठी कर-पश्चात निव्वळ लाभ / (तोटा) (विशेष तथा/किंवा असाधारण वस्तूंच्या पश्चात)	१६८८४.२९	५०२३२.४५	६०६८.०८	१८५३६.८०	५५६४८.१७	७३२५.११	
भरणा केलेले इक्विटी शेअर भांडवल	८९२.४६	८९२.४६	८९२.४६	८९२.४६	८९२.४६	८९२.४६	
राखीव निधी (पुनर्मूल्यांकन राखीव निधी सोडून) मानील वर्षाच्या लेखापरीक्षित ताळेबंदात दाखवल्याप्रमाणे	२९८९५९.७३	२९८९५९.७३	२५५८१७.७३	३३०२८२.६०	३३०२८२.६०	२८१३१७.७२	
प्रति शेअर कमाई (प्रत्येक 1 रुपयाचे दर्शनी मूल्य) (चालू आणि बंद परिचालनांसाठी) (₹) (तिमाही आकडे वार्षिकीकृत नाही)							
मूळ :	१८.९२	५६.२९	Ę. . 0	२०.७७	६२.३५	८.२٩	
कमी केल्यानंतर :	9८.९२	५६.२९	Ę. C 0	२०.७७	६२.३५	८.२٩	
कालावधीतील एकूण व्यापक कमाई कालावधीसाठी (कर-पश्चात) नफा/(तोटा) आणि इतर व्यापक कमाई (कर-पश्चात) सहित	संदर्भासाठी नोट नंबर २ बघा						
प्रतिभूति प्रीमियम खाते	७९११५.४८	७९११५.४८	७९११५.४७				
निट्वळ मूल्य	२९२८११.५४	२७६५६२.७९	२४५८३७.४७				
कर्ज इक्विटी गुणोत्तर	0.58	0.६६	0.६३				
थकबाकी विमोचन प्राधान्य शेअर्स	-	_	_				
भांडवल विमोचन राखीव निधी	-	_	_				
डिबेंचर विमोचन राखीव निधी	_	-	_				

वरील विवरण सेबी (सूची आणि इतर प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली, २०१५ च्या नियमन ३३ अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजमध्ये दाखल केलेल्या तिमाही/वार्षिक आर्थिक निकालांच्या तपशीलवार स्वरूपाचा एक उतारा आहे. तिमाही/वार्षिक आर्थिक निकालांचे संपूर्ण स्वरूप स्टॉक एक्सचेंजचे संकेतस्थळ: www.bseindia.com, www.nseindia.com आणि बँकेचे संकेतस्थळ: bank.sbi वर

883934.94

४८०६५३.०७

्रकूण सर्वसमावेशक उत्पन्न आणि इतर सर्वसमावेशक उत्प्रनाशी संबंधित माहिती उपलब्ध नाही कारण इंड-एएस अद्याप बँकेला लागू केलेले नाही

४१२३५१.६१

ठिकाण : मुंबई दिनांक: ०४.०८.२०२३

बोर्डाच्या आदेशानुसार दिनेश कुमार खारा





भारतीय स्टेट बँक, कॉर्पोरेट सेंटर, मादाम कामा रोड, मुंबई - ४०० ०२१.

आम्हाला फॉलो करा 📢 🖸 👽 🔞 🐚 🎯